

Indowind Energy Ltd

CIN: L40108TN1995PLC032311 E-mail: contact@indowind.com

20-08-2024

BSE Limited

The General Manager, The Corporate Relation Department, Phiroze Jeejoybhoy Tower, 44th Floor, Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 532894

National Stock Exchange of India Limited

Listing Department Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, -Bandra (E), Mumbai - 400 051 NSE Symbol: INDOWIND

Sub: Newspaper publication as per Regulation 92(1) of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements), 2018 ("SEBI ICDR Regulations") and Regulation 30 and Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with respect to Right Issue.

Dear Sir/Madam,

With respect to the Rights Issue of fully paid-up Equity Shares of our Company, this is to confirm that in accordance with Regulation 92(1) of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations"), the Company has issued the following public announcement (the "Post-Issue Advertisement") published on 20th AUGUST 2024 in the following newspapers:

- (i) Financial Express (English national daily newspaper with wide circulation),
- (ii) Jansta (Hindi national daily newspaper with wide circulation) and
- (iii) The Hindu (Tamil daily newspaper / Chennai Edition).

Please find enclosed copy of the Post-Issue Advertisement dated 20/08/2024 in the above mentioned newspapers.

Also this intimation may be considered as compliance with Regulation 47 and Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Regulations, 2015.

All capitalized terms used in this letter and not defined shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

We request you to take the above on record.

Yours faithfully,

For INDOWIND ENERGY LIMITED

B Sharath Company Secretary & Compliance Officer



செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 20, 2024

ஊர்வலம் 6 வழித்தட பணிகள் 2025 ஏப்ரலில் முடியும்

🔀 கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் ஆய்வு செய்த அமைச்சர் வேலு தகவல்

கிழக்கு கடற்கரைச் சாலையை 6 வழித்தடமாக மாற்றும் பணிகள் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரலில் முடியும் என்று அமைச்சர் எ.வ[்].வேலு தெரிவித்தார்.

திருவான்மியூர் முதல் உத்தண்டி வரை மேம்பாலம் அமைப்பதற் கான பணிகளை அமைச்சர் எ.வ. வேலு நேரில் ஆய்வு செய்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

கிழக்கு கடற்கரைச் சாலையின் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக் கும் வகையில், திருவான்மியூர் முதல் உத்தண்டி வரை மேம்பாலம் அமைப்பது குறித்து பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. திருவான்மியூர் முதல் உத்தண்டி வரையில் 15 கிமீ நீளம் கொண்ட இச்சாலையில், 17 போக்குவரத்து சிக்னல்கள் உள்ளன. எனவே, இச்சாலையை கடக்க 45 நிமிடங்கள் முதல் 60 நிமிடங்கள் வரை ஆகின்றன. இச் சாலையில் தற்பொழுது 69 ஆயிரம் வாகனங்கள் தினசரி செல்கின்றன. திருவான்மியூர் முதல் உத்தண்டி வரையிலான 15 கிமீ தொலைவு சாலையின் இருபுறத்திலும் 347 சிறு சாலைகள், தெருக்கள் உள்ளன.

எனவே, இச்சாலையை எவ் வளவு அகலப்படுத்தினாலும், அதிக மான வாகனப் போக்குவரத்து காரணமாக, போக்குவரத்து நெரி சல் ஏற்படுகிறது. இதனைக் கருத் தில் கொண்டு, திருவான்மியூர் முதல் உத்தண்டி வரை உயர்மட்டச் சாலை அமைப்பதற்கான கருத் துரு தயாரிக்கப்பட்டு, அரசு பரி சீலனை செய்து வருகிறது.

கட்டுவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட் டுள்ள உயர்மட்ட பாலம் டைடல் பூங்கா சந்திப்பில் தொடங்கி எல்பி சாலைச் சந்திப்பு, கொட்டிவாக்கம், கிழக்கு கடற்கரைச் சாலையில் திருவான்மியூர் முதல் அக்கரை வரை

6 வழித் தடமாக அகலப்படுத்த ரூ.940 கோடிக்கு நிர்வாக ஒப்புதல் வழங்கப் பட்டுள்ளது. 🦲

நீலாங்கரை, ஈஞ்சம்பாக்கம், அக் கரை வழியாக உத்தண்டியில் முடி வடையும். இப்பகுதி வாழ் பொது மக்களின் தேவை கருதி, எல்பி சாலைச் சந்திப்பு, திருவான்மியூர் ஆர்டிஓ அலுவலகம், நீலாங்கரை, ஈஞ்சம்பாக்கம் மற்றும் அக்கரை சந்திப்பில் பாலத்தில் ஏறி அல்லது இறங்கிச் செல்லும் வகையில் வடிவமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இப்பாலத்தின் மூலம் இப்பகு தியை 20 நிமிடங்களில் கடக்க இயலும். தற்போது, 6 வழிச்சாலை அமைக்க நில எடுப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது. கூடுதல் நில எடுப்பு ஏதும் மேற்கொள்ளாமல், 18 மாதங் களுக்குள் இந்த மேம்பாலத்தை கட்டி முடிக்க வேண்டும்.

சென்னை மாநகரில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக் கும் பொருட்டு, கிழக்கு கடற்கரைச் சாலையை திருவான்மியூர் முதல் அக்கரை வரை 6 வழித் தடமாக அகலப்படுத்தும் பணிகள் நடை பெ<u>று</u>கின்றன. கிழக்கு கடற்கரைச் சாலையில் திருவான்மியூரில் தொடங்கி, அக்கரை வரை 8.80 கிமீ தொலைவுக்கு பணிகள் நடை பெற்<u>று</u> வருகின்றன. இச்சாலையை,

திருவான்மியூர் முதல் அக்கரை வரை 6 வழித்தடமாக அகலப்படுத்த நில எடுப்புப் பணிக்கு, ரூ.940 கோடிக்கு நிர்வாக ஒப்புதலை அரசு வழங்கியுள்ளது.

திருவான்மியூர், கொட்டிவாக் கம், பாலவாக்கம், நீலாங்கரை, ஈஞ்சம்பாக்கம் மற்றும் சோழிங்க நல்லூர் ஆகிய 6 கிராமங்களில் . நில எடுப்புப் பணி 15 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு, இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலையை 6 வழித்தடமாக அகலப்படுத்து வதற்கு கொட்டிவாக்கம் பகுதியில் ரூ.19 கோடியிலும், பாலவாக்கம் பகுதியில் ரூ.18 கோடியிலும், நீலாங்கரை, ஈஞ்சம்பாக்கம் மற்றும் சோழிங்கநல்லூர் பகுதிகளில் ரூ.135 கோடியிலும் பணிகள் நடை பெறுகின்றன. இப்பணிகள் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முடியும்.

நில எடுப்பு செய்த இடங்களில் மழைநீர் வடிகால்வாய் அமைக்கும் பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன. இப் பணிகள் முடிவுற்ற இடங்களில் மின்வாரிய உபகரணங்களை மாற்றி அமைக்கும் பணி நடைபெறு கிறது. இப்பணிகள் முடிந்ததும், குடிநீர் குழாய் மற்றும் பாதாள கழிவுநீர் குழாய்கள் பதிக்கும் பணிகள் இருபுறமும் நடைபெறும்.

இத்திட்டங்களை விரைவாக வும், தரத்துடனும் செயல்படுத்தி முடித்து, பொதுமக்களின் பயன் பாட்டுக்கு விரைவில் கொண்டுவர உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரி களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார். ஆய்வின்போது, துறை செயலர் ஆர்.செல்வராஜ், தலைமை பொறி யாளர் கு.கோ.சத்திய பிரகாஷ் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில்

ஆற்காடு சுரேஷ் மனைவி ஆந்திராவில் கைது

கொலை செய்ய சொன்னது ஏன் என வாக்குமூலம்

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில், பிரபல ரவுடி ஆற்காடு சுரேஷின் மனைவி பொற்கொடியை, ஆந்தி போலீஸார் ாாவில் செய்தனர்.

பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநில தலைவராக இருந்த ஆம்ஸ்ட்ராங் கடந்த மாதம் 5-ம் தேதி பெரம்பூரில் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கு தொடர்பாக பிரபல ரவுடி ஆற்காடு சுரேஷின் தம்பி பொன்னை பாலு, அவரது கூட்டாளி திருவேங் கடம் உட்பட 21 பேர் அடுத்தடுத்து கைது செய்யப்பட்டனர். இதில், திருவேங்கடம் போலீஸாரால் ்என்கவுன்ட்டர் செய்யப்பட்டார்.

கொலை தொடர்பாக திமுக, அதிமுக, பாஜக, தமாகா கட்சி களைச் சேர்ந்தவர்கள், வழக்கறி ஞர்கள், ரவுடிகள் என பல தரப்பட் டவர்கள் அடுத்தடுத்து கைது செய் யப்பட்ட நிலையில், தமிழக இளை ருர் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாள ராக இருந்த வியாசர்பாடி எஸ்.எம். நகரை சேர்ந்த அஸ்வத்தாமன்(32) கைது செய்யப்பட்டார். அவர் கொடுத்த தகவலின் பேரில், அவரது தந்தையான வேலூர் சிறையில் ஆயுள் கைதியாக இருக்கும் பிரபல ரவுடி நாகேந்திரன் கைது செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து கைது செய்யப்பட்டோரின் எண் ணிக்கை 23 ஆக உயர்ந்தது.

இதையடுத்து, அஸ்வத்தாமன், அவரது தந்தை நாகேந்திரன் இருவரையும், காவலில் எடுத்து போலீஸார் விசாரித்தனர். அந்த ഖിசாரணையின் அடிப்படையில், ஆற்காடு சுரேஷின் மனைவி

பொற்கொடியை போலீஸார் தேடி வந்தனர். அவர் தலைமறை தனிப்படை வானதையடுத்து, அமைத்து போலீஸார் தேடினர்.

HT150120

இந்நிலையில், ஆந்திராவில் பதுங்கி இருந்த அவரை, தனிப் படை போலீஸார் நேற்று கைது செய்தனர். பின்னர், அவரை எழும் பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி னர். அவரை அடுத்த மாதம் 2-ம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தர விட்டார். அதன்படி பொற்கொடி சிறையிலடைக்கப்பட்டார்.

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை விவ காரத்தில் கொலையாளிகளுக்கு கோடிக்கணக்கில் பணம் கைமாறி யது. அந்த வகையில் பொற்கொடி, தனது கணவர் ஆற்காடு சுரேஷின் தம்பியான பொன்னை பாலுவுக்கு முதல் தவணையாக ரூ.1.5 லட்சம் வரை கொடுத்ததாகக் கூறப்படு கிறது. மேலும், கொலைக்கு மறை முக உதவிகளையும் பொற்கொடி போலீஸார் செய்ததாக தெரிவித்தனர்.

இதற்கிடையே, தலைமறை வாக உள்ள பிரபல ரவுடிகளான சீசிங் ராஜா, சம்போ செந்தில் ஆகி போரையும் தனிப்படை போலீஸார் தொடர்ந்து தேடி வருகின்றனர். இவர்கள் பிடிபடும் பட்சத்தில் கொலை திட்டத்தின் முழு விபர மும் வெளியாகும் என போலீஸார் தெரிவித்தனர்.

பரபரப்பு வாக்குமூலம்

இதற்கிடையே, பொற்கொடி போலீஸாரிடம் அளித்த வாக்கு மூலத்தின் விவரம்: எனது கணவர்



\land பொற்கொடி

ஆற்காடு சுரேஷ் எதிரிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக திகழ்ந்தார். அவரைக் கண்டாலே எதிர் தரப்பி னர் நடுங்கினர். இதை நான் கண் கூடாக பார்த்துள்ளேன். ஒரு கட்டத் தில் சென்னையில் அவருக்கு அச்சு றுத்தல் அதிகரித்தது. இதையடுத்து, எனது யோசனைப்படி அவர் சென் னையிலிருந்து சொந்த ஊரான ஆற்காடு பகுதியில் தங்கினார். இந்நிலையில்தான் கடந்தாண்டு

அவர் வழக்கு ஒன்றின் விசாரணைக் காக எழும்பூர் நீதிமன்றம் சென்று விட்டு, பின்னர் உணவருந்த மாலை நேரத்தில் பட்டினப்பாக்கம் கடற் கரைக்கு நண்பர்களுடன் காரில் சென்றார். இதை நோட்டமிட்டு எதிரி கள் கணவரை கொலை செய்தனர். இந்த அதிர்ச்சியை என்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை.

ஆற்காடு சுரேஷ் கொலையில் தொடர்புடையதாக பலர் கைது செய்யப்பட்டாலும், ஆம்ஸ்ட்ராங் இந்த கொலையில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாக எனக்கு நம்பத் தகுந்த தகவல் கிடைத்தது.

ஆனால், இந்த வழக்கில் அவர் சேர்க்கப்படவில்லை. இது எனக்கு மேலும் ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்தி யது. இதையடுத்து, அவரை கொலை செய்து பழி தீர்க்க வேண்டும் என சபதம் எடுத்தேன். நான் பெண் என்பதால் என்னால் . தனியாக இச்செயலை செய்ய முடியவில்லை.

இதுகுறித்து கணவரின் தம்பி யான பொன்னை பாலுவிடம் ஆலோசித்தேன். அவரும் சகோத ரரை கொலை செய்தவர்கள், பின் னணியில் இருந்தவர்கள் என யாரை யும் விடக்கூடாது என என்னைவிட . அதிக உக்கிரத்தில் இருந்தார். ஆனால், அவரிடம் போதிய பணம் இல்லை. இதையறிந்து எனது கழுத் தில் கிடந்த நகை மட்டும் அல்லா கழற்றி பொன்னை பாலுவிடம் கொடுத்தேன். அதை விற்று கிடைத்த ரூ.1.5 லட்சத்தை வைத்து கொலைக்கான ஆரம்ப கட்ட வேலைகளை செய்ய சொன்னேன். கணவர் ஆற்காடு சுரேஷ் முதலா மாண்டு நினைவு தினத்துக்கு முன்னர் தீர்த்துக் கட்ட வேண்டும் என சபதம் எடுத்து அதை நிறை வேற்றினோம் என கைதான பொற் கொடி வாக்குமூலமாக கூறியதாக போலீஸார் தெரிவித்தனர்.

எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் என்பது போல் பொன்னை பாலுவுடன் மேலும் பலர் கைகோர்த்து ஆம்ஸ்ட்ராங்கை தீர்த்து கட்டி உள்ளனர். அவர்களில் இன்னும் சிலர் தலைமறைவாக உள்ளனர். அவர்களையும் போலீஸார் தேடி



சுதந்திரப் போராட்ட தியாகி தீரர் சத்தியமூர்த்தியின் 137–வது பிறந்தநாளையொட்டி, சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் உள்ள அவரது சிலைக்கு, தமிழ்நாடு காங்கீரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை மற்றும் நிர்வாக்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். படம்: ம.பிரபு

பொது சிவில் சட்டம் அவசியம் இந்து முன்னணி வலியுறுத்தல்

இந்து முன்னணி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் வெளியிட்ட அறிக்கை:

பொது சிவில் சட்டம் தேசப் பிரிவினையை ஏற்படுத்தும் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கருத்து தெரிவித்துள்ளார். "மதம் என பிரிந்தது போதும்" என்று ஒரு பக்கம் வசனம் பேசுவது. மறுபுறம் மதத்துக்கு ஒரு சட்டம் வைத்துக்கொண்டு மத பிரிவினை எனும் தீமையை வளர்ப்பது எந்த வகையான அரசியல் என்பதை மக்கள் உணர வேண்டும்.

உண்மையில், பொது சிவில் சட்டம் உருவாகும் போதுதான் மக்கள்தொகை பெருக்கத்தின் சமமற்ற நிலைக்கு தீர்வுகாண நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். எனவே, பிரதமர் கூறியதுபோல, தேசம் முழுவதும் பொது சிவில் சட்டம் கொண்டுவர வேண்டும்.

America or otherwise outside India. All capitalized terms used and not defined herewith shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated July 10, 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchange, namely National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") (together referred to as the "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI")

This is only an advertisement for information purpose and not an offer document announcement. Not for publication, distribution or release directly or indirectly into the United States of



INDOWIND ENERGY LIMITED

Our Company was incorporated as "Indowind Energy Private Limited" on July 19, 1995, as a private limited Company under the Companies Act, 1956 and was granted the Certificate o Incorporation by the Registrar of Companies, Chennai. The Registered Office of our Company is situated at Kothari Buildings, 4th Floor, Chennai, Tamil Nadu 600 034. Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company was changed to "Indowind Energy Limited" on September 30, 1997, vide an amended certificate of Corporate Identification Number: L40108TN1995PLC032311

Registered Office: Kothari Buildings, 4th Floor, Chennai Tamil Nadu, 600 034, India Contact Person: B. Sharath, Company Secretary and Compliance Officer Telephone: 044-28331310 | E-mail id: bsharath@indowind.com | Website: www.indowind.co.in

PROMOTERS OF OUR COMPANY: BALA VENCKAT KUTTI. INDUS FINANCE LIMITED AND LOYAL CREDIT & INVESTMENTS LIMITED

ISSUE OF 2,14,66,956 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 22.50/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 12.50/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 4,830.06 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 EQUITY SHARE FOR EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS THURSDAY, JULY 16, 2024 (THE "ISSUE")

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company would like to thank all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue, which opened for subscription on Friday, July 26, 2024 and closed on Monday, August 05, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Wednesday, July 31, 2024. Out of the total 8,149 Applications for 3,40,51,466 Rights Equity Shares, 1,176 Applications for 7,68,895 Rights Equity Shares were rejected due to technical rejections as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 6,973 for 3,32,55,931 Rights Equity Shares, which was 154.92% of the Issue size. In accordance with the Letter of Offer, the Basis of Allotment was finalized on August 12, 2024, by the Company in consultation with BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Excha Issue and the Registrar to the Issue. The Board of Director of the Company has at its meeting held on August 12, 2024, approved the allotment of 2,14,66,956 Rights Equity Shares to the successful Applicants. All valid Applications after technical rejections have been considered for allotment.

1. The breakup of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	6,544	1,16,22,759	90,57,338	2,06,80,097
Renounces	429	19,08,783	1,06,67,051	1,25,75,834
Total	6,973	1,35,31,542	1,97,24,389	3,32,55,931

2. Information regarding total Applications received

full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited" on page 174 of the Letter of Offer

Category	Applications Received		_	Equity offares Applied for			Equity Shares anotted		
Category	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%	
Eligible Equity Shareholders	7,720	94.74	2,14,75,632	48,32,01,720	63.07	1,95,58,173	44,00,58,892.50	91.11	
Renounces	429	5.26	1,25,75,834	28,29,56,265	36.93	19,08,783	4,29,47,617.50	8.89	
Total	8,149	100.00	3,40,51,466	76,61,57,985	100.00	2,14,66,956	48,30,06,510.00	100.00	

. Basis of Allotmen

& Compliance Officer

Place: Chennal

Telephone: 044-28331310

E-mail id: bsharath@indowind.com

Category	No. of Applications	Allotted - against Entitlement	Allotted - Against valid additional shares	Shares Allotted
Eligible Equity Shareholders	6,544	1,16,227,59	79,35,414	1,95,58,173
Renounces	429	19,08,783	0	19,08,783
Total	6,973	1,35,31,542	79,35,414	2,14,66,956
Intimations for Allotment / refun	d/ rejection cases:			

The dispatch of Allotment Advice cum Refund intimation to the Allottees, as applicable, has been completed on Saturday, August 17, 2024. The instructions for unblocking of funds in case of ASBA Applications were issued to SCSAs on Monday, August 12, 2024, The Listing applications were filed with the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") on Tuesday, August 13, 2024. The Company received the Listing approval from National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") on Tuesday, August 13, 2024. The Company received the Listing approval from National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") on Tuesday, August 13, 2024. The Company received the Listing approval from National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") on Tuesday, August 13, 2024. The Company received the Listing approval from National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") on Tuesday, August 13, 2024. The Company received the Listing approval from National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") on Tuesday, August 13, 2024. The Company received the Listing approval from National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") on Tuesday, August 13, 2024. The Company received the Listing approval from National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") on Tuesday, August 13, 2024. The Company received the Listing approval from National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limit Wednesday, August 14, 2024. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form has been co Wednesday, August 16, 2024. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advices or Refund/Unblocking of ASBA Accounts" on page 210 of the Letter of Offer. The trading in fully paid-up Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on NSE and BSE upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about Tuesday, August 20, 2024. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBVHONCFODIL2ICIRP/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL & CDSL on July 18, 2024.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to SEBI should not in any way deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by SEBI. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures – Disclaime Disclaimer clause of NSE: "It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or

approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE" on page 174 of the Letter of Offer.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

Disclaimer clause of BSE: "It is distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared r approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the

Unless otherwise spaced, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer dated July 10, 2024 THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS

LEAD MANAGER TO THE ISSUE REGISTRAR TO THE ISSUE

SRUJAN ALPHA SRUJAN ALPHA CAPITAL ADVISORS LLP **BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED INDOWIND ENERGY LIMITED** CIN: U99999MH1994PTC076534 Address: Office No. S6-2, 6th floor, Pinnacle Business Park Registered Address: 112A, 1st Floor, Arun Bazar, S.V. Road, Beside Bank of India, Malad (West), Mumbai - 400 064 Registered Office: Kothari Buildings, 4th Floor, Correspondence Address: Corporate Avenue. 824 & 825. Chennai Tamil Nadu, 600 034, India Contact Person: B. Sharath, Company Secretary

Sonawala Rd, opposite Atlanta Centre, Sonawala Industry Estate Goregaon, Mumbai, 400 063 | **Tel**: +91 022-46030709 E-mail: indowind.rightsissue@srujanalpha.com Investor grievance e-mail: partners@srujanalpha.com Website: www.srujanalpha.com Contact Person: Jinesh Doshi SEBI Registration Number: INM000012829

Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra, 400 093 Telephone: +91 22 6263 8200/22 Email: rightsissue@bigshareonline.com

Website: www.bigshareonline.com Investor grievance e-mail: investor@bigshareonline.com Contact Person: Suraj G. SEBI registration no.: INR000001385

For Indowind Energy Limited On behalf of Board of Directors

B. Sharath

Date: August 20, 2024 INDOWIND ENERGY LIMITED has filed a Letter of Offer dated July 10, 2024 with NSE and BSE. The Letter of Offer is available on NSE at www.nseindia.com, the website of BSE at www.bseindia.com, the website of the Lead Manager to the Issue, i.e., Srujan Alpha Capital Advisors LLP at www.srujanalpha.com, website of the company at www.indowind.co.in and website of the Registrar at www.bigshareonline.com. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under U.S. Securities Act and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States, except in transaction not subject to, or exempt from the registration requirements of the US, Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Entitlements and the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in offshore transactions in compliance with Regulation 5 under the US. Securities Act and Entitlements and the Nights Lightly Shales are only denig officed and sold dotable in officed offices and shales occur. The Right Entitlements and the Equity Shares may not be re-offered, re-sold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in accordance with Regulation S under the U.S. Securities Act. The offering to which the Letter of offer relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or the Rights Entitlement for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the Rights Equity Shares or Rights Entitlement. There is no intention to register any portion of the Issue of any of the securities described herein in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Accordingly, the Issue Documents and the Application Form should not be forwarded to or transmitted in or to the United States

ராகேஷ் பால் உடல் சொந்த ஊர் சென்றது நர் ஜெனரலாக கடந்த ஆண்டு

கடலோர காவல்படையின் இயக்குநர் ஜெனரல்

சென்னையில் மாரடைப்பால் உயிரிழந்த இந்தியக் கடலோர காவல்படையின் தலைமை இயக்குநர் ஜெனரல் ராகேஷ் பால் உடல் அவரது சொந்த ஊருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.

சென்னையில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற கடலோர காவல்படையின் கடல்சார் மீட்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு மையத்தின் புதிய கட்டிட திறப்பு விழாவில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பங்கேற்றார். இந்த விழாவை ஒருங்கிணைக்கும் பணிக்காக இந்திய கடலோர காவல்படையின் தலைமை இயக்குநர் ஜெனரல் ராகேஷ் பால் (59) சென்னை வந்தார்.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் பிற்பகல் 3 மணியளவில் அவருக்கு திடீ ரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. உடனடியாக, சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத் துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். ஆனால்,



இந்நிலையில், மரணம் அடைந்த ராகேஷ் பாலின் உடல்



நேற்று டெல்லிக்கு கொண்டு செல்லப் பட்டது. அங்கு இந்தியக் கடலோர காவல்படையின் உயர் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் இறுதி அஞ்சலி செலுத் தினர். பின்னர், உத்தரப்பிரதேச மாநிலத் . தில் உள்ள அவரது சொந்த ஊருக்கு

கொண்டு செல்லப்பட்டது. படையின் 25-வது தலைமை இயக்கு



ராகேஷ் பால், இந்திய கடலோர காவல்



ஆண்டு இந்திய கடலோர காவல்படையில் பணியில் சேர்ந்தார். 34 ஆண்டுகால அனுபவம்

பெற்றுள்ள அவர், இந்திய கடலோர காவல்படையின் சமர்த், விஜித், சுசேதா கிருப ளானி, அகல்யாபாய் ஆகிய

நியமிக்கப்பட்டார். இந்திய கடற்

படை அகாடமியின் முன்னாள்

மாணவரான அவர், 1989-ம்

தலைமை பொறுப்பு வகித்துள்ளார். இவரது சேவையைப் பாராட்டி 2018-ம் ஆண்டு குடியரசுத் தலைவரின் உயரிய 'தத்ரக்ஷக் விருது' வழங்கப்பட்டது.

மறைந்த ராகேஷ் பாலுக்கு தீபா பால் என்ற மனைவியும், ஸ்னேஹல் மற்றும் தாருஷி ஆகிய இரு மகள்களும்

சிறந்த எழுத்தாளர், தமிழ் நூலுக்கு ஆண்டுதோறும் 2 இலக்கிய விருது

🔀 சிவசங்கரி சந்திரசேகரன் அறக்கட்டளை அறிவிப்பு

🖲 சென்னை

சிவசங்கரி சந்திரசேகரன் கட்டளை சார்பில் தமிழில் சிறந்த எழுத்தாளர் மற்றும் சிறந்த நூலுக்கு இந்த ஆண்டு முதல் இலக்கிய விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளன.

இதுகுறித்து அறக்கட்டளை நிர் வாகம் நேற்று வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

சிவசங்கரி சந்திரசேகரன் அறக் கட்டளை இந்த ஆண்டு முதல் 2 இலக்கிய விருதுகளை வழங்க உள்ளது. அந்த வகையில், தமிழ் எழுத்துல குக்கு சிறந்த படைப்புகளை வழங்கிய எழுத்தாளர் ஒருவருக்கு 'சூர்ய விருது' வழங்கப்படும்.

இது ரூ.3 லட்சம் பரிசுத் தொகை கொண்டது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் வெளியான சிறந்த நூலின் ஆசிரி யருக்கு 'அக்ஷர விருது' வழங்கப்படும். இது ரூ.2 லட்சம் பரிசு தொகை கொண் டது. விருதாளர்களுக்கு இலச்சினை, பாராட்டிதழ் வழங்கப்படும்.

ஆண்டில், எழுத்தாளர் அம்பைக்கு படைப்பாளுமைக்கான நாகரத்தினம் கூறப்பட்டுள்ளது. விருதும்,



அம்பை, நாகரத்தினம்

கிருஷ்ணா எழுதிய 'சைக்கோன் - புதுச் சேரி' என்ற நூலுக்கு அக்ஷர விருதும் வழங்கப்பட உள்ளன.

ஆளுநர் பங்கேற்பு

சென்னையில் அக்டோபர் மாதம் நடைபெற உள்ள பரிசளிப்பு விழாவில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, சாகித்ய அகாடமி செயலர் டாக்டர் சீனிவாச ராவ், டாக்டர் சுதா சேஷய்யன் ஆகி யோர் கலந்துகொண்டு, விருதாளர் களுக்கு விருது, பரிசு வழங்கி கவுரவிக்க உள்ளனர். இவ்வாறு அதில்

மாநகராட்சி சேவைகளை கண்காணிக்க

வும், பேரிடர் நிவாரண பணிகளிலும் ட்ரோன் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த இருப்பதாக மாநகராட்சி ஆணையர் ஜெ.குமரகுருபரன் தெரிவித்துள்ளார்.

இன்றைய அறிவியல் யுகம், ட்ரோன் யுகமாக மாறி வருகிறது.இந்நிலையில், மாநகராட்சியின் பல்வேறு சேவைகளை பயன்படுத்த மாநகராட்சி ஆணையர் குருபரன் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், "கடற்கரை கண்காணிப்பு, கால்வாய்கள் தூர் வாருதலை கண்காணித் தல், நிவாரண பணிகள், பேரிடர் காலங் களில் குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு மருந்துகளை கொண்டு செல்வது, மனிதர்களால் செல்ல முடியாத பகுதிகள் குறித்த வரைபடங்களை உருவாக்குவது, குப்பை கொட்டும் இடங்களை கண்காணிப்பது போன்ற பணிகளை ட்ரோன்கள் மூலம் மாநகராட்சி மேற்கொள்ள உள்ளது. அதற்காக ட்ரோன் இயக்குவோர் நியமிக்கப்பட உள்ளனர். அதற்கான டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது" என பதிவிட்டுள்ளார்.



கண்காணிக்கவும், மாநகராட்சியின் சேவை களை மேம்படுத்தவும் ட்ரோன்களை திட்டமிட்டுள்ளதாக ஜெ.குமர **FINANCIAL EXPRESS**

China, US 'unite' to deal with financial stress cases

BLOOMBERG August 19

CHINA'S CENTRAL BANK said a meeting in Shanghai produced an agreement with the US treasury to appoint contact people to deal with any future "financial stress events", a rare example of the two biggest world's economies seeking common ground.

The two sides "exchanged lists of financial stability contacts" during the fifth meeting of the so-called Financial Working Group that was set up following US treasury secretary Janet

Yellen's visit

to China last

ple's Bank of

China and

the US trea-

sury depart-

ment signed

an exchange

"The Peo-

year.

US, China exchanged lists of financial stability contacts during the fifth meet of the Financial

of notes on Working strengthen-Group ing China-US financial stability cooperation," according to the readout from the PBOC about the meetings

on August 15-16. The meetings in Shanghai planned to focus on topics including macroeconomic and financial stability, governance of the IMF and capital markets issues, according to a treasury spokesperson com-

menting before the meeting.

The agreements will "enable the financial management departments of both sides to maintain timely and smooth communication channels and reduce uncertainty when financial stress events and financial institutions' operational risks oc-

Sr.

No.

1.

Book Closure Dates

Record date for Dividend

Remote e-Voting Period

in physical form

DEMAT

Place: Mumbai

Date: 20.08.2024

For downloading form 15H/ 15G/ 10F

Submission of form 15H/ 15G/ 10F to email ID

—BLOOMBERG

US SECRETARY OF STATE WARNS ISRAEL, HAMAS

Last chance at Gaza truce: Blinken

HUMEYRA PAMUK & NIDAL AL-MUGHRABI Jerusalem/Cairo, August 19

US SECRETARY OF state Antony Blinken warned on Monday that the latest push for a Gaza ceasefire and hostage release deal was probably the best and possibly last opportunity, urging Israel and Hamas towards an elusive agreement.

However, with Palestinian Islamist group Hamas announcing a resumption of suicide bombing inside Israel after many years, and with Israeli airstrikes still pounding Gaza, there was little sign of conciliation.

The talks in Qatar last week paused without a breakthrough, but the negotiations are to resume this week based on a US "bridging proposal".

Blinken met Israeli President Isaac Herzog and Prime Minister Benjamin Netanyahu on Monday.

"This is a decisive moment, probably the best, maybe the last opportunity to get the hostages home, to get a ceasefire and to put everyone on a better path to enduring peace and security," Blinken told reporters before meeting Her-

Months of on-off talks have circled the same issues,



US secretary of state Antony Blinken (left) meets Israeli President Isaac Herzog, in Tel Aviv on Monday

with Israel saying the war can only end with the destruction of Hamas as a military and political force and Hamas saying it will only accept a permanent, and not a temporary, ceasefire.

There are disagreements over Israel's continued military presence inside Gaza, particularly along the border with Egypt, over the free movement of Palestinians inside the territory, and over the identity and number of prisoners to be freed in a swap.

Despite US expressions of optimism, both Israel and Hamas have signalled that a deal will be difficult.

Hamas accused Netanyahu on Sunday of "thwarting the mediators efforts" and Turkey said Hamas envoys had told it that US officials were "painting an overly optimistic picture". Netanyahu told Israel's

cabinet on Sunday that "we are conducting negotiations and not a scenario in which we just give and give", his office said.

However, a US official, asked if Hamas' comments amounted to a rejection of the deal, said Washington believed the bridging proposal it outlined last week addressed various concerns and would iron out difficult implementation aspects.

The current war in Gaza began on October 7 last year when Hamas gunmen stormed across the border into Israeli communities, killing around 1,200 people and abducting about 250 hostages according to Israeli tallies.

THE ARMED WINGS of

Hamas and Islamic Jihad

claimed responsibility on

Monday for a bomb blast

near a synagogue in Tel Aviv

that Israeli police and the

Shin Bet intelligence agency

described as a terrorist attack.

A man who was carrying the

bomb was killed and a

passerby was injured in the

incident late on Sunday, ac-

Hamas & Islamic Jihad

claim Tel Aviv bombing

Israel's military campaign has since levelled swathes of Gaza, driving nearly all of its 2.3 million people from their homes, giving rise to deadly hunger and disease and killing at least 40,000 people according to Palestinian health authorities.

The main UN agency in Gaza, UNRWA, said on Mon-

day that 207 of its staff had been killed since the war began. "They were engineers, teachers, medical staff. They were humanitarian workers," UNRWA said in a statement.

cording to police at the scene.

In their statement the

Brigades added that their

"martyrdom operations" in-

side Israel would return to

the forefront as long as the

"occupation's massacres and

assassination policy con-

tinue"—an allusion to Israel's

offensive in Gaza and the July

31 killing of Hamas leader Is-

mail Haniyeh in Tehran.

Blinken's visit comes as US President Joe Biden faces mounting pressure over his stance on the conflict, with his Democratic party holding its national convention on Monday amid worries about Muslim and Arab-American votes in swing states. Senior Hamas official Sami Abu Zuhri was dismissive of the chances that Blinken would press Netanyahu to accept a deal.

-REUTERS

AMD to buy server maker ZT for \$4.9 bn

IAN KING August 19

ADVANCED MICRO DE-**VICES** agreed to buy server maker ZT Systems in a cash and stock transaction valued at \$4.9 billion, adding data center technology that will bolster its efforts to challenge Nvidia.

ZT Systems, based in Secaucus, New Jersey, will become part of AMD's data center solutions business group, according to a statement Monday. AMD will retain the business's design and customer teams and look to sell the manufacturing division. The deal price includes a contingent payment of

\$400 million based on certain milestones. Closely held ZT has extensive experience making server

computers for

AMD CEO

Lisa Su

owners of large data centers the kind of customers that are pouring billions into new artificial intelligence capabili-

The acquisition will "significantly strengthen our data center AI systems," AMD CEO Lisa Su said in the statement. The company has its sights set on Nvidia, the runaway leader in the market for data center gear needed to support AI computing. AMD is adding software and hardware capabilities that will better match the breadth of Nvidia's offerings and speed the uptake of

the graphics processors that have become so vital to developing AI software. And it's spent more than \$1 billion in the last 12 months to expand its reach in that market.

its chips. AMD is the second-

biggest provider of

In July, the company agreed to buy Silo AI for \$665 million to add a maker of artificial intelligence models.

BLOOMBERG

US launches programme for immigrant spouses

JORGE GARCIA & TED HESSON Los Angeles, August 19

MIGUEL ALEMAN, A 39-yearold who was brought to the US from Mexico at age 4, is among hundreds of thousands of immigrants hoping to find a path to citizenship through a new Biden administration programme launched on Monday.

The programme is one of

facility shall be counted for the purpose of reckoning quorum as per Section 103 of Companies Act, 2013.

may be sent on request of any such Member made at sci.cs@sci.co.in

PARTICULARS

Cut-off date for reckoning eligibility for remote e-Voting

For updating Email id, Mobile Numbers and Bank Account

details and other KYC information-For Members holding shares

For updating Email id, Mobile Numbers, Bank Account details

and other KYC information-For Members holding shares in

Detail Information regarding applicability of TDS on Dividend/how

to update Email id, Mobile Numbers, KYC and Bank Account

Details and instructions for attending the AGM through VC/OAVM

The Manner in which Shareholders holding shares in DEMAT,

physical mode or those Shareholders who have not registered

their email addresses, can cast their vote through remote

e-Voting or through e-Voting system during the meeting

tic President Joe Biden to provide legal status to long-term US residents who entered ille-

The Shipping Corporation Of India Ltd.

(A Government of India Enterprise)

Regd. Office: Shipping House, 245, Madame Cama Road, Mumbai - 400021, Phone: 91-22 2202 6666, 2277 2000

Fax: 91-22 22026905, Website: www.shipindia.com, CIN: L63030MH1950GOI008033

INFORMATION REGARDING 74th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

Shareholders are hereby informed that 74th AGM of Company will be held on Wednesday, September 18, 2024 at

1200 hours IST through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) in compliance with applicable provisions

of Companies Act, 2013, MCA General Circular dated September 25, 2023 read with Circular dated May 05, 2020 and other relevant

MCA Circulars issued in this regard, and all other applicable laws and circulars, to transact the businesses as set forth in the Notice of 74th AGM. Members can attend/participate in AGM through VC/OAVM facility only. Members attending AGM through VC/OAVM

In compliance with aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated October 07, 2023 and other relevant SEBI Circulars issued in this regard, the Notice of 74th AGM along with Annual Report for FY 2023-24 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with Company/Depositories/RTA as on August 9, 2024. Members may note that the Notice of 74th AGM along with Annual Report 2023-24 will also be available on Company's website www.shipindia.com, websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of NSDL at www.evoting.nsdl.com Any person acquiring shares after dispatch of e-Notice of 74th AGM may visit SCI's website www.shipindia.com under 'Financial Results → Annual Reports' section. Physical copy of 74th Annual Report 2023-24

Shareholders may note below important dates, website path and other information with respect to 74th AGM of Company

Friday, 06.09.2024

Friday, 13.09.2024

https://einward.alankit.com

Please send an email at rta@alankit.com

alankitassignments.com/investor-charter/

of the Company at the following link:

ing investor service request/12

Participants (DPs) / Depositories

Shareholders → Notices" section.

gally. It comes months before the November 5 election, where Republicans have made illegal immigration a central focus. Without the programme, Aleman, who has two young children with his US-citizen

wife and works as an Uber dri-

ver, would have to relocate to

the biggest moves by Democra- Mexico—possibly for a decade or longer —before being allowed to return legally.

> "My whole family is here," said Aleman, one of dozens of immigrants from Mexico, El Salvador and the Philippines who gathered at a Friday information session on the programme organised by the Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles.

—BLOOMBERG

This is only an advertisement for information purpose and not an offer document announcement. Not for publication, distribution or release directly or indirectly into the United States of America or otherwise outside India. All capitalized terms used and not defined herewith shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated July 10, 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchange, namely National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") (together referred to as the "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI")



INDOWIND ENERGY LIMITED

Our Company was incorporated as "Indowind Energy Private Limited" on July 19, 1995, as a private limited Company under the Companies Act, 1956 and was granted the Certificate of Incorporation by the Registrar of Companies, Chennai. The Registered Office of our Company is situated at Kothari Buildings, 4th Floor, Chennai, Tamil Nadu 600 034. Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company was changed to "Indowind Energy Limited" on September 30, 1997, vide an amended certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Chennai. Corporate Identification Number: L40108TN1995PLC032311

Registered Office: Kothari Buildings, 4th Floor, Chennai Tamil Nadu, 600 034, India Contact Person: B. Sharath, Company Secretary and Compliance Officer Telephone: 044-28331310 | E-mail id: bsharath@indowind.com | Website: www.indowind.co.in

UR COMPANY: BALA VENCKAT KUTTI. INDUS FINANCE LIMITED AND LOYAL CREDIT & INVESTMENTS LIMITED

ISSUE OF 2.14.66,956 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹

22.50/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 12.50/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 4,830.06 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 EQUITY SHARE FOR EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS THURSDAY, JULY 16, 2024 (THE 'ISSUE').

The Board of Directors of our Company would like to thank all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue, which opened for subscription on Friday,

BASIS OF ALLOTMENT

July 26, 2024 and closed on Monday, August 05, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Wednesday, July 31, 2024. Out of the total 8,149 Applications for 3,40,51,466 Rights Equity Shares, 1,176 Applications for 7,68,895 Rights Equity Shares were rejected due to technical rejections as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 6,973 for 3,32,55,931 Rights Equity Shares, which was 154.92% of the Issue size. In accordance with the Letter of Offer, the Basis of Allotment was finalized on August 12, 2024, by the Company in consultation with BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange, the Lead Manager to the Issue and the Registrar to the Issue. The Board of Director of the Company has at its meeting held on August 12, 2024, approved the allotment of 2,14,66,956 Rights Equity Shares to the successful Applicants. All valid Applications after technical rejections have been considered for allotment.

1. The breakup of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below: No. of Equity Shares accepted No. of Equity Shares accepted Total Equity Shares No. of valid CAFs

Category	(including ASBA applications) received	and allotted against Entitlement (A)	and allotted against Additional applied (B)	accepted and allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	6,544	1,16,22,759	90,57,338	2,06,80,097
Renounces	429	19,08,783	1,06,67,051	1,25,75,834
Total	6,973	1,35,31,542	1,97,24,389	3,32,55,931

Potogoni						majority within the city of		
Category	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%
Eligible Equity Shareholders	7,720	94.74	2,14,75,632	48,32,01,720	63.07	1,95,58,173	44,00,58,892.50	91.11
Renounces	429	5.26	1,25,75,834	28,29,56,265	36.93	19,08,783	4,29,47,617.50	8.89
Total	8,149	100.00	3,40,51,466	76,61,57,985	100.00	2,14,66,956	48,30,06,510.00	100.00

Category	No. of Applications	Allotted - against Entitlement	Number of Rights Equity Shares Allotted Against valid additional shares	Shares Allotted
Eligible Equity Shareholders	6,544	1,16,227,59	79,35,414	1,95,58,173
Renounces	429	19,08,783	0	19,08,783
Total	6,973	1,35,31,542	79,35,414	2,14,66,956

The dispatch of Allotment Advice cum Refund intimation to the Allottees, as applicable, has been completed on Saturday, August 17, 2024. The instructions for unblocking of funds in case of ASBA Applications were issued to SCSAs on Monday, August 12, 2024, The Listing applications were filed with the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") on Tuesday, August 13, 2024. The Company received the Listing approval from National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") on Wednesday, August 14, 2024. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on Wednesday, August 16, 2024. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advices or Refund/Unblocking of ASBA Accounts" on page 210 of the Letter of Offer. The trading in fully paid-up Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on NSE and BSE upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about Tuesday, August 20, 2024. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBVHONCFODIL2ICIRP/ 2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL & CDSL on July 18, 2024. INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to SEBI should not in any way deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by SEBI. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text as provided in "Other Regulatory and

Clause of SEBI on page 173 of the Letter of Offer. Disclaimer clause of NSE: "It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the

'Disclaimer Clause of NSE' on page 174 of the Letter of Offer. Disclaimer clause of BSE: "It is distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the

full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited" on page 174 of the Letter of Offer. Unless otherwise spaced, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer dated July 10, 2024.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS

OF THE COMPANY. REGISTRAR TO THE ISSUE COMPANY LEAD MANAGER TO THE ISSUE

> SRUJAN ALPHA CAPITAL ADVISORS

INDOWIND ENERGY LIMITED

Place: Chennai

Date: August 20, 2024

CIN: L40108TN1995PLC032311 Registered Office: Kothari Buildings, 4th Floor,

Chennai Tamil Nadu, 600 034, India Contact Person: B. Sharath, Company Secretary & Compliance Officer Telephone: 044-28331310 E-mail id: bsharath@indowind.com Website: www.indowind.co.in

entitled "Risk Factors" on page 20 of the Letter of Offer.

Registered Address: 112A, 1st Floor, Arun Bazar, S.V. Road, Beside Bank of India, Malad (West), Mumbai - 400 064 Correspondence Address: Corporate Avenue, 824 & 825, Sonawala Rd. opposite Atlanta Centre, Sonawala Industry Estate. Goregaon, Mumbai, 400 063 | Tel: +91 022-46030709 E-mail: indowind.rightsissue@srujanalpha.com Investor grievance e-mail: partners@srujanalpha.com Website: www.srujanalpha.com Contact Person: Jinesh Doshi SEBI Registration Number: INM000012829

SRUJAN ALPHA CAPITAL ADVISORS LLP

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED CIN: U99999MH1994PTC076534

Address: Office No. S6-2, 6" floor, Pinnacle Business Park Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra, 400 093 Telephone: +91 22 6263 8200/22 Email: rightsissue@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com Investor grievance e-mail: investor@bigshareonline.com

Contact Person: Suraj G. SEBI registration no.: INR000001385 For Indowind Energy Limited

On behalf of Board of Directors

B. Sharath Company Secretary and Compliance Officer

INDOWIND ENERGY LIMITED has filed a Letter of Offer dated July 10, 2024 with NSE and BSE. The Letter of Offer is available on NSE at www.nseindia.com, the website of BSE at www.bseindia.com, the website of the Lead Manager to the Issue, i.e., Sruian Alpha Capital Advisors LLP at www.sruianalpha.com, website of the company at www.indowind.co.in and website of the Registrar at www.bigshareonline.com. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section

HENNAI/KOCHI

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under U.S Securities Act and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States, except in transaction not subject to, or exempt from the registration requirements of the US, Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Entitlements and the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in offshore transactions in compliance with Regulation 5 under the US. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. The Right Entitlements and the Equity Shares may not be re-offered, re-sold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in accordance with Regulation S under the U.S. Securities Act. The offering to which the Letter of offer relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or the Rights Entitlement for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the Rights Equity Shares or Rights Entitlement. There is no intention to register any portion of the Issue of any of the securities described herein in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Accordingly, the Issue Documents and the Application Form should not be forwarded to or transmitted in or to the United States

 The remote e-Voting period commences on 15.09.2024 at 09:00 AM and ends on 17.09.2024 at 05:00 PM (both days inclusive). During this period, Members holding shares either in physical/dematerialized form as on Friday, 13.09.2024 may cast their vote electronically. The e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be present in AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system during the AGM. Members are requested to read carefully all instructions given in the Notice of AGM for joining the AGM and for manner of casting vote through e-Voting facility.

Dividend, if approved by Shareholders in the ensuing AGM will be paid within 30 days from the date of AGM through various modes. To avoid delay in receiving dividend, shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Registrar and Transfer Agent (where shares are held in physical mode) to receive dividend directly into their bank account(s) on the payout date. Shareholders are requested to refer Company's communication/intimation dated 30.07.2024, issued in this regard. Dividends paid or distributed by a Company shall be taxable in the hands of the Shareholders. The TDS rate may vary depending on the residential status of the Shareholder. Members may contact RTA at rta@alankit.com or + 91-11-4254 1234.

For THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LIMITED

IMPORTANT DATES / WEBSITE /

EMAIL-ID / INFORMATION

From 15.09.2024 at 09:00 AM till 17.09.2024 at 05:00 PM

Please visit Registrar and Transfer Agent's website at

All investor service request forms are available on Registrar

and Transfer Agent's website - https://www.

Also, in compliance with SEBI Circular dated March 16, 2023

all investor service request forms are available on the website

https://www.shipindia.com/investors/norms for process

Please update these details with your respective Depository

www.shipindia.com under "Investors → Information for

07.09.2024 to 18.09.2024 (both the days inclusive)

Smt. Swapnita Vikas Yadav

Company Secretary & Compliance Officer

TRANSPORTING GOODS. TRANSFORMING LIVES

imancialexp.epapr.in

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में} केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए के मामले में

अजुनी प्रीमियर रियल्टी प्राइबेट लिमिटेह (CIN: U65999DL1997PTC091294) जिसका पंजीकृत कार्यालय:121, दूसरी मंजिल, ब्लॉक ए-2. सैक्टर-5. विश्राम चौक के पास. रोहिणी. नई दिल्ली, दिल्ली-110085 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी /याचिकाकर्ता तदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपर्न . हेन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की चारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है जेसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय** राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "पंजाब राज्य" स्थानांतरित करने के लिए **17 अगस्त 2024** व प्रायोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशे प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएश में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तायित स्थानांतर से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है। वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) मे शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिस उनके हित का प्रकार और चसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14 दिनों के गीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली—110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकत कार्यालय पते पर भी भेजें 121, दूसरी मंजिल, ब्लॉक ए-2, सैक्टर-5 विश्राम चौक के पास, रोहिणी, नई दिल्ली, दिल्ली-110085

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर रं अजुनी प्रीमियर रियल्टी प्राइबेट लिमिटेड हस्ता/-

गिरधारी लाल सिंगला दिनांक : 19:08:2024 स्थान : नई दिल्ली डीआईएन: 0062393!

कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड सीआईएन नंबर U65990DL2017PLC322041 CAPITAL INDIA पंजीकृत पताः दूसरी मंजिल, डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

> कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) [(परिशिष्ट IV) नियम <math>s(1)]

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के अंतर्गत कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड [सीआईएन संख्या U65990DL2017PLC322041] का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण खाता सं. HLNLAPKNL0010594 के संबंध में दिनांक 11.06.2024 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें कर्जदारों रमेश कुमार पुत्र चमेला राम, सरोज बाला पत्नी रमेश कुमार और जगदीप पुत्र रमेश कुमार से मांग सूचना में उल्लिखित कुल राशि 09.06.2024 तक रु. 26,83,725/- (छब्बीस लाख तिरासी हजार सात सौ पच्चीस मात्र) तथा ऋण समझौते के अनुसार दिनांक10.06.2024 से अर्जित/उपार्जित होने वाले अतिरिक्त ब्याज और प्रभार का उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया

कर्जदार द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, कर्जदार और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17-08-2024 को नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और आम जनता को संपत्ति से संव्यवहार के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड के 09.06.2024 तक रु. 26,83,725/- (रुपये छब्बीस लाख तिरासी हजार सात सौ पच्चीस मात्र) की राशि के साथ-साथ पूर्वोक्त ब्याज और शुल्क के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का क्षेत्रफल 150 वर्ग गज यानि 0 बीघा-3 बिस्वा है जो कुल संपत्ति का 3/414 हिस्सा है जिसका क्षेत्रफल 20 बीघा-14 बिस्वा है, जो खेवट संख्या 3518, खतौनी संख्या 5338-5341, कित्ते-8 में शामिल है जो शास्त्री नगर, करनाल, तहसील और जिला- 132001 में स्थित है, साथ ही सभी अधिकार (सामान्य क्षेत्रों, सुविधाओं, सुख-सुविधाओं, विकास अधिकारों आदि (जैसा लागू हो) का उपयोग करने और उन पर कब्जा करने के अधिकार सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है) और सभी फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग और उससे जुड़ी चीजें। सीमाएं निम्नानुसार हैं: पूर्वः टाइटल डीड के अनुसार, पश्चिमः टाइटल डीड के अनुसार, उत्तरः टाइटल डीड के अनुसार, दक्षिणः टाइटल डीड के अनुसार,

दिनांक -17-08-2024 प्राधिकृत अधिकारी कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड स्थान - करनाल

This is only an advertisement for information purpose and not an offer document announcement. Not for publication, distribution or release directly or indirectly into the United States of America or otherwise outside India. All capitalized terms used and not defined herewith shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated July 10; 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchange, namely National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") (together referred to as the "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI")



Our Company was incorporated as "Indowind Energy Private Limited" on July 19, 1995, as a private limited Company under the Companies Act, 1956 and was granted the Certificate of Incorporation by the Registrar of Companies, Chennai, The Registered Office of our Company is situated at Kothari Buildings, 4th Floor, Chennai, Tamil Nadu 600 034. Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company was changed to "Indowind Energy Limited" on September 30, 1997, vide an amended certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Chennal.

> Corporate Identification Number: L40108TN1995PLC032311 Registered Office: Kothari Buildings, 4th Floor, Chennai Tamil Nadu, 600 034, India Contact Person: B. Sharath, Company Secretary and Compliance Officer Telephone: 044-28331310 | E-mail id: bsharath@indowind.com | Website: www.indowind.co.in

ROMOTERS OF OUR COMPANY: BALA VENCKAT KUTTI. INDUS FINANCE LIMITED AND LOYAL CREDIT & INVESTMENTS LIMITED

ISSUE OF 2,14,66,956 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 22.50/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 12.50/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 4,830.06 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 EQUITY SHARE FOR EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS THURSDAY, JULY 16, 2024 (THE "ISSUE").

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company would like to thank all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue, which opened for subscription on Friday, July 26, 2024 and closed on Monday, August 05, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Wednesday, July 31, 2024.

Out of the total 8,149 Applications for 3,40,51,466 Rights Equity Shares, 1,176 Applications for 7,68,895 Rights Equity Shares were rejected due to technical rejections as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 6,973 for 3,32,55,931 Rights Equity Shares, which was 154,92% of the Issue size. In accordance with the Letter of Offer, the Basis of Allotment was finalized on August 12, 2024, by the Company in consultation with BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange, the Lead Manager to the Issue and the Registrar to the Issue. The Board of Director of the Company has at its meeting held on August 12, 2024, approved the allotment of 2,14,66,956 Rights Equity Shares to the successful Applicants, All valid Applications after technical rejections have been considered for allotment.

1. The breakup of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	6,544	1,16,22,759	90.57,338	2,06,80,097
Renounces	429	19,08,783	1,06,67,051	1,25,75,834
Total	6,973	1,35,31,542	1,97,24,389	3,32,55,931

2. Information regarding total Applications received:

Catanany	Applications Received		E	Equity Shares Applied for			Equity Shares allotted		
Category	Number	Number %		Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%	
Eligible Equity Shareholders	7,720	94.74	2,14,75,632	48,32,01,720	63.07	1,95,58,173	44,00,58,892.50	91.11	
Renounces	429	5.26	1,25,75,834	28,29,56,265	36.93	19,08.783	4,29,47,617.50	8.89	
Total	8,149	100.00	3,40,51,466	76,61,57,985	100.00	2,14,66,956	48,30,06,510.00	100.00	

3. Basis of Allotment

Category	No. of Applications	Number of Rights Equity Shares Allotted - against Entitlement	Number of Rights Equity Shares Allotted Against valid additional shares	Total Rights Equity Shares Allotted
Eligible Equity Shareholders	6,544	1,16,227,59	79,35,414	1,95,58,173
Renounces	429	19,08,783	0	19,08,783
Total	6,973	1,35,31,542	79,35,414	2,14,66,956

Intimations for Allotment / refund/ rejection cases: The dispatch of Allotment Advice cum Refund intimation to the Allottees, as applicable, has been completed on Saturday, August 17, 2024. The instructions for unblocking of funds in case of ASBA Applications were issued to SCSAs on Monday, August 12, 2024. The Listing applications were filed with the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE. Limited ("BSE") on Tuesday, August 13, 2024. The Company received the Listing approval from National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") on Wednesday, August 14, 2024. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on Wednesday, August 16, 2024. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advices or Refund/Unblocking of ASBA Accounts' on page 210 of the Letter of Offer. The trading in fully paid-up Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on NSE and BSE upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about Tuesday, August 20, 2024. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBVHONCFODIL2lCIRP/ 2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL & CDSL on July 18, 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to SEBI should not in any way deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by SEBI. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of SEBI on page 173 of the Letter of Offer.

Disclaimer clause of NSE: "It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE" on page 174 of the Letter of Offer. Disclaimer clause of BSE: "It is distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared

or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited" on page 174 of the Letter of Offer.

Unless otherwise spaced, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer dated July 10, 2024. THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS. OF THE COMPANY.

SREIJAN ALIFHA

CAPITAL ADVISORS

COMPANY

INDOWIND ENERGY LIMITED CIN: L40108TN1995PLC032311

Registered Office: Kothari Buildings, 4th Floor, Chennai Tamil Nadu, 600 034, India Contact Person: B. Sharath, Company Secretary & Compliance Officer Telephone: 044-28331310 E-mail id: bsharath@indowind.com Website: www.indowind.co.in

EAD MANAGER TO THE ISSUE

SRUJAN ALPHA CAPITAL ADVISORS LLP Registered Address: 112A, 1st Floor, Arun Bazar, S.V. Road, Beside Bank of India, Malad (West), Mumbai - 400 064 Correspondence Address: Corporate Avenue, 824 & 825, Sonawala Rd, opposite Atlanta Centre, Sonawala Industry Estate, Goregaon, Mumbai, 400 063 | Tel: +91 022-46030709 E-mail: indowind.rightsissue@srujanalpha.com Investor grievance e-mail: partners@sruianalpha.com Website: www.srujanalpha.com Contact Person: Jinesh Doshi SEBI Registration Number: INM000012829

REGISTRAR TO THE ISSUE

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED CIN: U99999MH1994PTC076534 Address: Office No. S6-2, 6" floor, Pinnacle Business Park Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra, 400 093 Telephone: +91 22 6263 8200/22 Email: rightsissue@bigshareonline.com

Website: www.bigshareonline.com Investor grievance e-mail: investor@bigshareonline.com Contact Person: Suraj G. SEBI registration no.: INR000001385

> For Indowind Energy Limited On behalf of Board of Directors

> > B. Sharath

Place: Chennai Date: August 20, 2024

Company Secretary and Compliance Officer

INDOWIND ENERGY LIMITED has filed a Letter of Offer dated July 10, 2024 with NSE and BSE. The Letter of Offer is available on NSE at www.nseindia.com, the website of BSE at www.bseindia.com, the website of the Lead Manager to the Issue, i.e., Srujan Alpha Capital Advisors LLP at www.srujanalpha.com, website of the company at www.indowind.co.in and website of the Registrar at www.bigshareonline.com. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" on page 20 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under U.S Securities Act and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States, except in transaction not subject to, or exempt from the registration requirements of the US, Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Entitlements and the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in offshore transactions in compliance with Regulation 5 under the US. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. The Right Entitlements and the Equity Shares may not be re-offered, re-sold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in accordance with Regulation S under the U.S. Securities Act. The offering to which the Letter of offer relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or the Rights Entitlement for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the Rights Equity Shares or Rights Entitlement. There is no intention to register any portion of the Issue of any of the securities described herein in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Accordingly, the Issue Documents and the Application Form should not be forwarded to or transmitted in or to the United States

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश V नियम 20 के साथ पठित एनसीएलटी नियमन, 2016 के नियम 38 के तहत प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से सूचना

> माननीय राष्ट्रीय कंपनी करनून न्यावाधिकरण . नई दिल्ली बेंच-IV, नई दिल्ली के लमझ भारतीय स्टेट बैंक

श्री अंबिका इंटरनेशनल फूछ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सी पी. (आईबी) नं 1542/एनडी/2018 में अई ए नं 8217/2023

सेवा मे-अमासिया मल्टीग्रेन प्राइवेट लिमिटेड, पता चुकान न. २४, क्षीक्षीए मार्जेट, सीएससी- II, संबटर -13, रोडिणी वर्ड दिल्ली - 110085

प्रतिवादी नं 4 पुषि, भी शहेश बसल, अधिका इंटरनेशनल पुष्ट कवनी ब्रह्मबंट तिमिटेंड के स्थायन पेतेया / निस्तानी परांचर ने अर्थ्यों राज्य की मान नंद एवं ४४ में नवान अर्थ एन ६३५२/२०३३ से यूक्त एक अर्थरन राधर किया है और इस्कीरिए बारनीय एनसीएसटी बंध- IV, नहें दिल्ली ने आपको दिनस 22:11.2021 को प्रयोक्त नामित संक्रिट सबीता यह को नाटिस जाती किया गया। हिनाक co-co-2024 के आहेत में तथा बारनीय एनटिएएटी पंच- IV, नई दिल्ली ने आहरतवारी की अलगरना ग्रेस के नादम से आपना विकेष की सब करने की अनुनति ही है।

ताम रहे कि उपरोक्त रीविक राजे मामले को उथ विभाव १५८५३०३४ को मामनीय वाष्ट्रीय कामी कानुर न्यापारिकारण, बंध- IV, तम् विराणि वां दमका यूकीबाइ क्रिया प्राप्ताना आप या तां गाविनता रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधि को नामान से धार हो समारी है।

ल्यान के कि परिलक्षित जिन क्षणकी पार्यकरते में भूक बांन पर आक्षण पर क्षाक्री क्षणुक्रीकारि में क्लात होगी और निर्मय किया प्रशासन

भी अविका इंटरनेशानस पुढ संपनी सङ्गेट शिनिटेव के जिए समाधान पेतेंबर / निगतनी पेतेंबर

''फॉर्म संख्या आईएनसी-26' [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार] [कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से

दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन] केंद्र सरकार के समक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30

के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में **– और –** मेसर्स ट्रांस ग्लोबल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: U62100DL2006 PTC147075) वे मामले में, जिसका **पंजीकृत कार्यालय डी–90, नवादा** हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन नई

दिल्ली-110059, दिल्ली के पास, में है। भाम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी 22.02.2024 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है. ताकि

कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य"से

"झारखंड राज्य" में बदल सके। कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह **निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल** करके एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर जमा कर सकता है या अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003, को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर, आवेदक कंपनी को उसके **पंजीकृत कार्यालय डी–90, नवादा** हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के **पास, नई दिल्ली—110059** में एक प्रति के साथ नीचे

उल्लिखित पते पर प्रस्तुत करना होगाः

@ Piramal

Finance

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम

के लिए और की ओर से ट्रांस ग्लोबल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड हस्ता / – (राजेश प्रसाद) दिनांक : 19.08.2024 निदेशक स्थानः नई दिल्ली

डीआईएन-00543563

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

''फॉर्म संख्या आईएनसी-26''

किंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन]

केंद्र सरकार के समक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धार (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

मेसर्स उगना स्टील प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: U74899DL1995PTC064500) के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-90, नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली-110059, दिल्ली में है।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपर्न 22.02.2024 को आयोजित असाधारण आम बैठक पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी एसोसिएशन के ज्ञापन में परिवर्तन की पष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **''दिल्ली राज्य'**'रे

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करके एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर जमा कर सकता है या अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को **पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक,** उत्तरी क्षेत्र के पते बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स. नई दिल्ली-110003, को इस नोटिस वे प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर, आवेदक कंपनी को उसके **पंजीकृत कार्यालय डी-90, नवादा** हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के **पास, नई दिल्ली—110059** में एक प्रति के साथ नीचे उल्लिखित पते पर प्रस्तुत करना होगाः

"झारखंड राज्य" में बदल सके।

के लिए और की ओर से उगना स्टील प्राइवेट लिमिटेड हस्ता / – (राजेश प्रसाद) दिनांक : 19.08.2024 स्थानः नई दिल्ली। डीआईएन-00543563 63

ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड CIN: L72900DL2009PLC341980

पजीं. कार्यालयः एडब्ल्यूएफआईएस, प्रथम तल, ए-24/9, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, मथुरा रोड, साहिबाबाद, नई दिल्ली-110044,

फोन: +91-11-411-33905 ई-मेलः cs@e2enetworks.com, वेबसाइटः https://www.e2enetworks.com

वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली 15वीं वार्षिक आम सभा के उद्देश्य के लिए ई-मेल आईडी के पंजीकरण की सूचना तथा ई-वोटिंग की जानकारी

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 15वीं वार्षिक आम सभा (''एजीएम'') बुधवार, 11 सितम्बर, 2024 को 11.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) में विडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''वीसी''/''ओएवीएम)'' से आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों के साथ पठित 05 मई 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, नवीनतम परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') ने अपने मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/ पी/2023/120 दिनांक 11 जुलाई 2023 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-| २/पी/सीआईआर/२०२३/१६७ दिनांक ०७ अक्टूबर २०२३ (''सेबी परिपत्र'') (इसके पश्चात सामृहिक रूप से (''परिपत्र'' संदर्भित) के अनुसार, कंपनियों को 30 सितंबर, 2024 तक सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, ''वीसी''/''ओएवीएम'' के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है। इसलिए, परिपत्रों, कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की 15वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बुधवार, 11 सितंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) एक ही स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना के साथ उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट / संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ ऊपर उल्लिखित परिपत्रों के अनुसार पंजीकृत हैं। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की कोई भौतिक प्रति किसी भी सदस्य को नहीं भेजी जाएगी, हालाँकि, वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति शेयरधारकों को अनुरोध करने पर भेजी जाएगी। सदस्य कृपया ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.e2enetworks.com/ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('आरटीए'/ 'लिंक इनटाइम') की वेबसाइट www.linkintime.co.in | पर भी उपलब्ध होगी। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103

के तहत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा। ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका:

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा ('ई-वोटिंग') प्रदान कर रही है। एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा। **ई-मेल पते को पंजीकत/अपडेट करने का तरीका**:

ईमेल पतों के स्थायी पंजीकरण/अपडेशन के लिए, सदस्य संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अनरोध भेज सकते हैं।

लिंक इनटाइम द्वारा सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड ('ई-वोटिंग') के माध्यम से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी और इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सुचना में प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 8 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और मंगलवार, 10 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जो कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 4 सितंबर, 2024 को शेयर धारण करते हैं, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और परिपत्रों के अनुपालन में है।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 शेयरधारकों को लागू कानूनों के अनुसार उनके पंजीकृत ईमेल पते पर नियत समय पर भेजी जाएगी। कोई भी सदस्य जिसके पास ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न/शिकायत है, वह रजिस्ट्रार और

शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) कॉपोर्रेट रजिस्ट्री, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 022 – 4918 6000 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकता है या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल कर सकता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड के लिये

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 19.08.2024

माग

सूचना

प्राधिकत अधिकारी

कब्जा करने

(अधिकृत प्राधिकारी)

कृते पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

रोनित गाबा कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

ग्राष्ट्रा करवासक एससीओच्छ, कामनीधा एन्कलेब, बागवर-जीवसूर हावि, जीवसूर 🎖 रिक ऑफ़ बड़ीदा Bank of Baroda जिला प्रायम् अतः भेग्नाली (पजाब), जो: 5558-46419 इं नेल zirakpa bankofbaruda ce-

विकाय परिसंपतियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निमांचा तथा प्रतिभृति हित प्रयतिन अभिनियम, २००२ (सर्गंकारी) की धाम 15(2) के सहत नोटिस लल्हार जेरिक दिन तक है कि निम्मिरिक्ट कर्नेट्स ही (रामार) है। के में प्रम प्रम प्राप्त प्राप्त में में प्रमान और नाम को अदावते में कुछ को है और उन्ह महिला जैसे व्यक्तिक हैर प्रकारित कोर्नेटर्स कर रहे हैं। सिटीय कोर्नेट्स का प्रतिकृतिकाल और पुरतिक्रीय तक प्रतिकृति केता प्रकार अधिकास 2002 की तक 14(2) कि ओर्नेटर्स

के बात यह सबने के बारण है कि बार्राल्य वरिया की अमेल में बार मो हैं, ऐसे में उन्हें इसके की में सर्वातिक जीतम के बारान में मुरित किया जात है। हम आपका रूपन वाल अधियान को साए. १३ की वर साथ (३) की और अन्तर्गित करते हैं तिमके अनुवार आपको हमारी पूर्व तिर्वाल महायी प्राव किए विमा विश्वी, पहें पर आजन्त (प्राप्तातिक परिविधि के आतान) कियों में प्रतिन्द संपति को प्रवासीत करने से ठेक दिया गया है। इस पर भी तोड़ अवते हैं कि उस अभिनेत्रम की भारत 13(2) में निर्देश पालोक्त प्रथलान का अनुमालन न करना ऑस्टिमियन को गया 24 के तरश देवनीय अमारत है। हाम अमारत वाल अस्टिमियन को गया 13 की प्रथमा (a) को और शक्रविंत करते हैं, विसके अनुसर अब जीवृत परिसर्गतियें को विपेतित कर सकते हैं, जीत हैंसा कम को गई सकी एउनाईं, गुल्बी और पसरी के कार कराया राजि को पति अपनेत क्षाप करतेतीया जीएको मोहिएन। अवश्रापतिका विशेष के जिए नेतिया के प्रकारत की लिए के प्रकार के लिए के प्रकार की

कार्यक्षा(चे) मार्ग्टर(चे) को प्रतके अतिम जार को का प्रेमीकृत प्रवेद जेक्ट प्राप्त गार्थ थे। प्राप्तीक गेर्न्टरा विका गार्थण किए बावन आ गर हैं और प्राप्तिक अधिकारी

कर्नदार् में) एवं मारेटर् में) के क्य	प्रतिभृतिकों के मंशिया विकास संक्रित प्रतिभृति समझौता	जील-प्रकाशिक प्रवासकारे करि स्थित	भाग गुरान वर्षे निर्देश	माग गुण्य के शतुःखाः वात (क.)	मुख्या की प्रकृति एवं प्रकार
:- धर्मीट पंचर १०४-१०७, औररोनेक	क्रमांक १; सुविधा की प्रकृति एवं प्रकार। नवाद क्रमा, स्टेंबर, ४. १०,००,०००: ; व रिनाम 12,08,2024 तमा समामा : रू.	क्श हर (वर्तवार	有): 11.00%;	fiffig 12.04.2024 ma	क्या क्रीप्ट - अप्रमुख्य भ्यान
रामचयु डिमायस्त्री रीज, वैदायस्त्री, एक्क्कुल तहर, प्रजाब — 1403011 फ्रान्ट्रान मजाब मंत्रा 9/30, मीता	संद्रिष्ट विवरण के साथ प्रतिभूति समझ र्थम २०४-१०५ पर और्द्राणक फेक्ट्स ४	तेक:- नीचे दिश् सान, १४ वरता	गर् कियरण के स 2 संस्थाती (औ	रच स्टैटरिंग्स का इकि। डोरिंग फैस्टरी) मूत्रि	वें बाधित है, जिस

कोनोरी, गांची कार, पहाओ, एवं किन्न/कार के कार 90/120, शहर कार 11//22(6-5), 23//(2(4-4), 14//3/1(2-16), 4/1(2-1), 7/1(1-विकारी, विकार - 112031, पता- 3:- 7), 25(8-0), किसे 6 कुल भूमि 25 फराल 13 मान्य जिसमें जिस्सा 164(461) कारी 16 मान्य 2 समार्थी (551.00 करिट दोवा क्य-20%, गोवजन जीज वर्ग एत) है, औडॉरिक क्षेत्र रोप मोर्ट्सकरों, तहातील बेरानाओं, जिल्ल एक्ट्राव नार में तिना, से मौतर अञ्चल पुत्र अध्यरित, औरद अंदाता रीड, दक्षीती, औ नर्यन फूपर के नम पा, निम्यनुसर मीमा- उसा, मानने की सहका, विशेषा, पीछे की और की सहका, व्यंत्रसमूद, मोशानी-१८८१०४, दिवांक: पूर्व: खाली वर्षट व्यंत्रमा १८६, प्रीक्रम: खाली वर्षट व्यंत्रमा १८३ 19.08.2024

दिनाक + 19.09.2024 स्वार । जिल्हास

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालयः युनिट नंबर 601, 6ठी मंजिल, पीरामल एमिटी बिल्डिंग, अगस्त्य कॉरपोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम) मुंबई –400070, दुरभाष : +91 2238024000 **शाखा कार्यालय**ः जयपुर टावर, नंबर 302/1 से 6, तीसरी मंजिल, मिर्जा इस्माइल रोड, एआईआर के सामने, जयपुर, राजस्थान 302001

सीआईएन : L65910MH1984PLC032639

कब्जा सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) तथा परिशिष्ट IV के अनुसार अचल सम्पत्ति हेतु जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व का डीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी की मांग सुचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारक (कों)/ गारन्टर (रों) उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित ाधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर ब्याज के साथ नीचे वर्णित राशि के लिए पीसीएचएफएल (पूर्व का डीएचएफएल) के चार्ज के अधीन होगा।

सं.		विवरण (अचल सम्पत्ति)	तिथि तथा राशि	की तिथि
1	LC-00900015583, शाखा-जयपुर- वैशाली, श्री/श्रीमती धर्मेंद्र कुमार गुप्ता (कर्जदार), सुनीता देवी (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- फ्लैट नंबर- 413, 4वीं मंजिल साव्यास रेजीडेंसी नरसिंहपुरा, सांगानेर जयपुर जयपुर राजस्थान 302012	मांग सूचना दिनांक/राशि :-27 दिसम्बर 2022, रु. 2,80,852/- (दो लाख अस्सी हजार आठ सौ बावन रुपए मात्र)	
2	LC-00900014096, शाखा-जयपुर- वैशाली, श्री/श्रीमती राजेश कुमार (कर्जदार), सीमा गोयल (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- फ्लैट नंबर- 102, ग्राउंड फ्लोर, पी एन-36 और 37, मां एन्क्लेव, लव-कुश नगर-1 स्ट्रीट, मान्यावास, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर, जयपुर, राजस्थानः- 302012	मांग सूचना दिनांक/राशि :- 09 सितम्बर 2020, रु. 21,04,145/- (इक्कीस लाख चार हजार एक सौ पैंतालीस रुपए मात्र)	17.08.24 (सांकेतिक)
3	LC-04700004534, शाखा-जोधपुर, श्री/श्रीमती अर्जुन सिंह (कर्जदार), जशोदा कंवर (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- खसरा नंबर 2293/383, कृषि मंडी के पीछे, प्लॉट नंबर 13 ब्लॉक नंबर कसिवाना बाड़मेर राजस्थान:- 344044	मांग सूचना दिनांक/राशि :-29 अप्रैल 2023, रु. 11,61,870/- (ग्यारह लाख इकसठ हजार आठ सौ सत्तर रुपए मात्र)	14.08.24 (सांकेतिक)
4	LC-04700004558, शाखा-जोधपुर, श्री/श्रीमती दुर्ग सिंह (कर्जदार), सरोज कंवर (सह-कर्जदार)		मांग सूचना दिनांक/राशि :-27 दिसम्बर 2022, रु. 11,28,513/- (ग्यारह लाख अट्टाईस हजार पांच सौ तेरह रुपए मात्र)	14.08.24 (सांकेतिक)
5	LC-04700003444, शाखा-जोधपुर, श्री/श्रीमती राणा राम वीरा (कर्जदार), गोमती तेजा राम (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- डी-407, खसरा नंबर- 06 सुशांत नगर योजना गांव-भाकरासनी, तहसील- लूणी जोधपुर जोधपुर राजस्थानः- 342001	मांग सूचना दिनांक/राशि :-26 मार्च 2024, रु. 11,49,440/- (ग्यारह लाख उनचास हजार चार सौ चालीस रुपए मात्र)	14.08.24 (सांकेतिक)
6	LC-15300002427, शाखा-उदयपुर, श्री/श्रीमती रोशन भट्ट (कर्जदार), उमा शंकर भट्ट (सह-कर्जदार)	_	मांग सूचना दिनांक/राशिः-22- फरवरी- 2022, रु. 8,84,287/- (आठ लाख चौरासी हजार दो सौ सतासी रुपए मात्र)	17.08.24 (सांकेतिक)
7	LC-15300000840, शाखा-उदयपुर, श्री/श्रीमती कैलाश चंद्र गुर्जर (कर्जदार), शीतल देवी (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग-मकान संख्या 46 वार्ड संख्या 28 पुलिस लाइन टेकड़ी, उदयपुर उदयपुर उदयपुर राजस्थानः- 313001	मांग सूचना दिनांक/राशि:-20- फरवरी-2024, रु. 7,75,630/- (सात लाख पचहत्तर हजार छह सौ तीस रुपए मात्र)	17.08.24 (सांकेतिक)
8	LC-04700005211, शाखा-जोधपुर, श्री/श्रीमती प्रवीण सोनी (कर्जदार), हेमलता (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग-मकान संख्या 1/280, ब्लॉक 01, हाउसिंग बोर्ड, आसोतरा रोड बालोतरा के पास, बाड़मेर बाड़मेर राजस्थानः- 344022	मांग सूचना दिनांक/राशि:-22- अप्रैल- 2024, रु. 7,17,201/- (सात लाख सत्रह हजार दो सौ एक रुपए मात्र)	14.08.24 (सांकेतिक)

प्रपत्र सं. एनसीएलटी. ३ए याचिका का विवरण देने वाला विज्ञापन (नियम 35 देखें) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, कोलकाता पीठ, कोलकाता के समक्ष

174 / केबी / 2023 से संबंधित याचिका (सीएए) संख्या 119 / केबी / 2024 नेम्न मामले में: अलंकृत व्यापार प्राइवेट लिमिटेड;

कंपनी कंपनी आवेदन (सीएए) संख्या

कैप्टन ट्रेड एंड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड; ड्रीमन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड; एमरसेक होलिंडग प्राइवेट लिमिटेड;

जेमको वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड: जेट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड; एम.एल. फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड . निकिता इलेक्ट्रोट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड; . पूर्वी वाणिज्य नियोजन लिमिटेड;

10. राघव कमर्शियल लिमिटेड; 11. शशि कमर्शियल कंपनी लिमिटेड; 12. स्ट्रेंथ फिनकैप मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड; इन सभी का पंजीकृत कार्यालयः कमरा नंबर 303

तीसरी मंजिल, गेट नंबर 2, पोद्दार कोर्ट, 18, रवींद्र

सरानी, कोलकाता-700001 में है; 3. भारत इन्वेस्टमेंट ग्रोथ लिमिटेड; 4. गिल्टेज्ड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज लिमिटेड; 15. इन्वेस्टर्स इंडिया लिमिटेड;

16. इंडिया टेक्सफैब मार्केटिंग लिमिटेड; 17. कलाती होलिंडग्स प्राइवेट लिमिटेड: 18. एलएनजे फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड;

19. एनआर फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड; 20. श्रास्ती मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेडः 21. उत्तरि इन्वेस्टमेंटस प्राइवेट लिमिटेड: इन सभी का पंजीकृत कार्यालयः 702, 7वीं मंजिल, बार्न

सिटी सेंटर, सेक्टर-63, गुरुग्राम, 122011, हरियाणा में है 22. रेडरोज वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय कमरा नंबर 303, तीसरी मंजिल, गेट नंबर 2 पोद्दार कोर्ट, 18, रवींद्र सरानी, कोलकाता–700001 में है

याचिका की सूचना राधिका पटोदिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मारोती एं

एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,16, स्ट्रैंड रोड, डायमंड हेरिटेज बिलिंडग 5वीं मंजिल कमरा नंबर एन-503 कोलकाता-700001 के पार्टनर द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 232 के तहत रेड्रोज वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड (पैन-AAECR2767E) (इसके बाद "ट्रांसफरी कंपनी" के रूप में संदर्भित) के साथ अलंकृत व्यापार प्राइवेट लिमिटेड (पैन-AACCA5413A), कैप्टन ट्रेड एंड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड (पैन-AADCC6016C). ड्रीमॉन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (पैन-AAACD8917A), इमर्सेक होलिंडग प्राइवेट लिमिटेड (पैन-AAACE7460K), जेम्को वाणिज्या प्राइवेट लिमिटेड (पैन— AAACJ7895F), जेट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (पैन–AAACJ6646G), एम.एल.फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड (पैन—AACCM8027A) निकिता इलेक्ट्रोट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड AAACN9018N), पूर्वी वाणिज्य नियोजन लिमिटेड (पैन-AACCP0033B), राघव कमर्शियल लिमिटेड (पैन-AABCR1826K), शशि कमर्शियल कंपनी लिमिटेड (पैन-AAECS7924G), स्ट्रेंथ फिनकैप मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड (पेन- IAECS0639Q),भारत इन्वेस्टमेंट ग्रोथ लिमिटेड (पैन-AAACB1052A), गिलटेडेज्ड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज लिमिटेड (पैन-AAACG0484D), इन्वेस्टर्स इंडिया लिमिटेड (पैन-AAAC10047C), इंडिया टेक्सफैब मार्केटिंग लिमिटेड (पैन–AAAC12067A), कलाती होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (पैन—AAACK0198G), एलएनजे फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (पैन-AAACL0002E),

एन आर फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (पैन–AAACN2881M), श्रास्ती मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (पैन- AAMCS9220R) उत्तरि इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (पैन– AAACU0071A), (इसके बाद "टांसफरर कंपनियां" के रूप में संदर्भित) की व्यवस्था की योजना को मंजूरी देने के लिए एक याचिका प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण व कोलकाता पीठ ने 19 जुलाई, 2024 को एक आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि उक्त याचिका को अंतिम सुनवाई और निपटान के लिए माननीय पीठ के समक्ष 30 अगस्त, 2024 को सुनवाई के लिए तय

उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अपने नाम और पते के साथ अपने आप या उनके वकील द्वारा हस्ताक्षरित, इस प्रकार याचिकाकर्ता के अभ्यासरत चार्टर्ड अकाउंटेंटको उसके इरादे की सूचना भेजनी चाहिए, ताकि उक्त कंपनी आवेदन की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम र कम दो दिन पहले याचिकाकर्ता के अभ्यासरत चार्टर्ड अकाउंटेंट तक पहुंच जाए। जहां इच्छुक व्यक्ति उपर्युक्त कंपनी आवेदन का विरोध करना चाहता है,वहां वह उसवे विरोध के आधार या उसके शपथ पत्र की एक प्रति ऐसी सचना के साथ प्रस्तत करनी होगी। अधोहस्ताक्षरी द्वार उपरोक्त कंपनी आवेदन की एक प्रति किसी भी ऐसे व्यक्ति को भी प्रस्तुत की जाएगी जिसको निर्धारित शुल्क वे भुगतान पर इसकी आवश्यकता होगी।

दिनांक 16/08/2024 राधिका पटोदिया पार्टनर, मारोती एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 16, स्ट्रैंड रोड, डायमंड हेरिटेज बिलिंडग, 5वीं मंजिल, कमरा नंबर एन-503, कोलकाता-70000

www.readwhere.com

स्थान : राजस्थान

तिथि : 20.08.2024